



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,  
मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर 302026, Ph. 0141-5132022  
अनुसन्धान-केन्द्र

www.jrsanskrituniversity.ac.in

email-jrrsu@yahoo.com

क्रमांक प.( ) जरारासंवि/अनु.के./ 16/

दिनांक.

**विद्यानिधि (प्री-एम.फिल.) / विद्यावारिधि (प्री-पीएच.डी.) अनुसन्धान पात्रता प्रवेश  
परीक्षा 2016-17 हेतु गठित कमेटी का बैठक कार्यवाही विवरण:-**

आज दिनांक 08.08.2016 को विद्यानिधि (प्री-एम.फिल.) / विद्यावारिधि (प्री-पीएच.डी.) अनुसन्धान पात्रता प्रवेश परीक्षा सत्र 2016-17 का पाठ्यक्रम, प्रेस-विज्ञप्ति व प्राक्शोध परीक्षा का आवेदन पत्र- 2016 (4 प्रपत्र) का परीक्षण करने के लिए समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें अधोलिखित निर्णय लिए गये:-

1. विद्यानिधि (प्री-एम.फिल.) / विद्यावारिधि (प्री-पीएच.डी.) अनुसन्धान पात्रता प्रवेश परीक्षा सत्र 2016-17 का परीक्षा शुल्क राशि रूपये 1000/- (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) रखे जाने की अनुशंसा की गई।
  2. विद्यानिधि (प्री-एम.फिल.) / विद्यावारिधि (प्री-पीएच.डी.) अनुसन्धान पात्रता प्रवेश परीक्षा सत्र 2016-17 परीक्षा हेतु दो प्रश्न-पत्र होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न-पत्र संस्कृत वाङ्मय का समान्य ज्ञान जिसके पूर्णांक 100 अंक तथा समय 1.30 घंटा होगा। यह प्रथम प्रश्न-पत्र बहुविकल्पात्मक संस्कृत भाषा में 100 प्रश्नों का होगा तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र अपने विषय से सम्बन्धित होगा जिसके पूर्णांक 100 का होगा तथा समय 1.30 घंटा रहेगा। यह प्रश्न-पत्र लिखित होगा जिसका उत्तर संस्कृत भाषा में ही देना होगा।
- विद्यानिधि (प्री-एम.फिल.) / विद्यावारिधि (प्री-पीएच.डी.) अनुसन्धान पात्रता प्रवेश परीक्षा सत्र 2016-17 के प्रवेश आवेदन पत्र के प्रारूप का अवलोकन किया गया जिसे समिति द्वारा उपयुक्त माना गया। विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित विद्यानिधि (प्री-एम.फिल.) / विद्यावारिधि (प्री-पीएच.डी.) अनुसन्धान पात्रता प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम का परीक्षण किया गया जिसे समिति द्वारा उपयुक्त माना गया।

**विशेष सूचना:- (प्री-एम.फिल./ प्री-पीएच.डी.-2016-17)**

1. छात्र आवेदन पत्र को स्वयं के हाथ से सुस्पष्ट अक्षरों में भरें।
2. आवेदन पत्र को पूरित कर दिनांक 10.09.2016 तक निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र, ज.रा. राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, भांकरोटा, जयपुर-302026 पर डाक द्वारा या व्यक्तिशः कार्यालय समय में जमा करावें।

3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न डी.डी. किसी भी राष्ट्रीय-कृत बैंक से बनवाकर दिया जा सकता है। डी.डी. **(Registrar, J.R.R.Sanskrit University, Jaipur )** (या) / **कुलसचिव, जरारासंविधि, जयपुर** के नाम देय होगा।
4. शुल्क विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति इलाहबाद बैंक से चालान द्वारा भी जमा कराया जा सकता है।
5. आवेदन पत्र भरने में की गई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होगा। गलत सूचना देने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
6. परीक्षा के पाठ्यक्रम की सूचना एवं अन्य सम्पूर्ण जानकारियाँ विश्वविद्यालय की बैबसाइट- [www.jrrsanskrituniversity.ac.in](http://www.jrrsanskrituniversity.ac.in) पर समय- समय पर प्राप्त कर सकते हैं।
7. प्री-एम.फिल./ प्री-पीएच.डी. पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बैबसाइट पर उपलब्ध है।
8. अन्य किसी सम्बद्ध सूचना के लिए विश्वविद्यालय कार्यालय समय में अनुसन्धान-केन्द्र के दूरभाष संख्या- 0141-5132022 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे.आर.एफ. उत्तीर्ण एवं संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर से (विद्यानिधि) एम.फिल. परीक्षा उत्तीर्ण जिन्होंने षाण्मासिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर रखा है वे छात्र विद्यावारिधि (प्री-पी.एच.डी.) परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

**10. विशेष:-**

(क) विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को यू.जी.सी. द्वारा मान्य आचार्य (स्नातकोत्तर) अथवा एम.ए. (संस्कृत) संयुक्ताचार्य पञ्चवर्षीय पाठ्यक्रम, दो वर्षीय आचार्य (आचार्य सेमेस्टर प्रणाली), एम. फिल उपाधि में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अथवा

(ख) आचार्य (स्नातकोत्तर) अथवा एम.ए. संस्कृत सहित शिक्षाचार्य / एम.एड. (शिक्षा स्नातक स्तर पर संस्कृत शिक्षण विषय सहित) उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ग) विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि हेतु शोध करने वाले अभ्यर्थी अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक ही तक ही विश्वविद्यालय में नियमित शोधार्थी के रूप में प्रवेश ले सकेंगे। अनुसूचित जाति/ जनजाति/ महिला अभ्यर्थियों को इस

आयु में तीन वर्ष की / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित छूट मिल सकेगी।

- (घ) अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत में छूट होगी।
- (ङ) अभ्यर्थी उत्तम आचरण, समयबद्ध प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा निर्धारित उपस्थिति के आधार पर ही नियमित शोधार्थी रह सकेंगे।
- (च) सेवारत/ सेवानिवृत्त अध्यापक/ कर्मचारी ये सभी अंशकालिक शोधार्थी होंगे और उनके लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- (छ) आचार्य/ आचार्य सेमेस्टर/ संयुक्ताचार्य पञ्चवर्षीय/ एम.ए. (संस्कृत) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी सम्बद्ध संकाय/ सम्बद्ध विषय (अन्तःशास्त्रीय) में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि के लिए पंजीकरण हेतु पात्र होंगे।

समिति शीघ्र ही विद्यानिधि (प्री-एम.फिल.) / विद्यावारिधि (प्री-पीएच.डी.) अनुसन्धान पात्रता प्रवेश परीक्षा विज्ञप्ति जारी करने की अनुशंसा करती है।

**नोट:-भारत के राजपत्र में दिनांक 05 जुलाई 2016 को पीएच.डी. से सम्बन्धित जारी अधिसूचना लागू की जाती है।**

**(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)**  
आचार्य, वेद विभाग

**(डॉ. राजधर मिश्र)**  
विभागाध्यक्ष, व्याकरण

**(डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा)**  
उप-कुलसचिव